


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 2002 (आषाढ़ 8, 1924)
 No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 2002 (ASADHA 8, 1924)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।)
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 635	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	535	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बन्ध और अधोनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1125
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	949	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1275
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3373
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयको पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टे	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	141
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकनों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	635
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	535
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	949
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	.
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	1125
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	1275
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3373
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	141
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi ..	*

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(सहा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2002

सं० 109-प्रे०/2002—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण कोर्ट की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं—

- आईसी-13244 लेफि० जनरल सरब जॉन सिंह सहगक वामे, विसेमे, आर्टिलरी।
- आईसी-13529 लेफि० जनरल रविन्द्र मोहन चड्ढा, अविसेमे, इंजीनियरी।
- आईसी-13954 लेफि० जनरल सुरेन्द्र कुमार जैन, अविसेमे, विसेमे, विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरी।
- आईसी-11531 लेफि० जनरल ओंकार सिंह लोहवत अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री।
- आईसी-14541 लेफि० जनरल गोपाल कृष्ण दुग्गन, अविसेमे, वीर चक्र, मराठा लाइट इन्फैंट्री।
- आईसी-14765 लेफि० जनरल दत्तात्रय बालाजीराव शकातकर, अविसेमे, विसेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री।
- आईसी-15786 लेफि० जनरल तेजिन्द्र सिंह गिल, कवचित्त कोर।
- आईसी-15861 लेफि० जनरल विजय कुमार कपूर, कवचित्त कोर।
- आईसी-15938 लेफि० जनरल अर्जुन रे, विसेमे, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री।
- एमआर-01652 लेफि० जनरल रविन्द्र कुमार जटली, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर।
- एमआर-01987 लेफि० जनरल हरचरन सिंह, सेना चिकित्सा कोर।
- वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश, अविसेमे, वीर चक्र, विसेमे (00590-आर)।
- वाइस एडमिरल रमन पुरी, अविसेमे, विसेमे, (00604-वाइ)।
- वाइस एडमिरल मदन सिंह, अविसेमे (00614-इंस्ट्यू)।

- सर्जन वाइस एडमिरल हर प्रभाद मुखर्जी, अविसेमे, विसेमे (75091-के)।
- एयर मार्शल श्रीपेरम्बुदूर राघवन, अविसेमे, विसेमे (6710) परिभारिकी (सेवानिवृत्ति)।
- एयर मार्शल मनजीत सिंह मेखां, वीर चक्र, शौर्य चक्र, वामे (6756) फ्लाइटिंग (पायलट)।
- एयर मार्शल प्रतीप कुमार घोष, अविसेमे, विसेमे (7106) वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी) (सेवानिवृत्ति)।
- एयर मार्शल माइकल मैकमान, अविसेमे, वामे, एमडी (7399), फ्लाइटिंग (पायलट)।
- एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना, अविसेमे, वामे (7672), फ्लाइटिंग (पायलट)।
- एयर मार्शल मान न बोमनशाह साहू, अविसेमे, वामे-बार (7681), फ्लाइटिंग (पायलट)।

वरुण मिश्रा,
निदेशक

सं० 110-प्रे०/2002—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण कोर्ट की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं—

- आईसी-14381 मजर जनरल सुधीर चंदर शोपड़ा अविसेमे, पैरा।
- आईसी-17291 मजर जनरल रविन्द्र नाथ कपूर, अविसेमे, 4 गोरखा/मुख्यां आईजी ए आर (एन)।

वरुण मिश्रा,
निदेशक

सं० 111-प्रे०/2002—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण कोर्ट की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं—

- आईसी-14405 लेफि० जनरल कमलेश्वर शंकर, कवचित्त कोर।

2. आईसी-15403 लेफ्टि० जनरल धर्म प्रकाश सहगल, विसेमे, सिग्नल ।
3. आईसी-15787 लेफ्टि० जनरल महेश विज, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 कोर ।
4. एमआर-01817 लेफ्टि० जनरल माधव आनंद तुटकणे, विसेमे, एएमसी/एफएमसी पुणे ।
5. आईसी-15847 मेजर जनरल भरत नाथ कौल, विसेमे, पैरा ।
6. आईसी-16953 मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह, विसेमे, आर्टिलरी/मुख्या० 28 इन्फैंट्री डिवीजन ।
7. आईसी-17206 मेजर जनरल अनूप सिंह जम्वाल, विसेमे, आर्टिलरी/मुख्यालय 21 माउंटेन डिवीजन ।
8. आईसी-17240 मेजर जनरल रिचर्ड खारे, सेमे, विसेमे, 5 गोरखा राइफल/मुख्यालय सीआईएफ(आर) ।
9. आईसी-17244 मेजर जनरल निर्भय शर्मा, विसेमे, पैरा/मुख्यालय सीआईएफ (के) ।
10. आईसी-17252 मेजर जनरल प्रमोद कुमार गरोवर, विसेमे, इंजीनियर्स/मु० 26 इन्फैंट्री डिवीजन ।
11. आईसी-17266 मेजर जनरल नारायण सिंह पठानिया, विसेमे, 5 गोरखा राइफल/मुख्या० 25 इन्फैंट्री डिवीजन ।
12. आईसी-17609 मेजर जनरल इकबाल सिंह, विसेमे, गार्ड्स/ मुख्यालय 57 माउंटेन डिवीजन ।
13. आईसी-20760 मेजर जनरल केशव चंद्र पाध्या, विसेमे, (पैरा)/सीडीएम सिकन्दराबाद ।
14. आईसी-26279 मेजर जनरल दलवीर सिंह, वीर ब्रह्म, विसेमे, पैरा/मुख्यालय सीआईएफ (के) ।
15. आईसी-15018 मेजर जनरल नरन्द्र प्रकाश औल, इंजीनियर्स/मुख्यालय एससी ।
16. आईसी-16796 मेजर जनरल विरेन्द्र सिंह बुधवार, विसेमे, कुमाऊं/12 कोर ।
17. एमआर-02325 मेजर जनरल विजय वामन तिलक, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर ।
18. एमआर-02600 मेजर जनरल जनक राज भारद्वाज, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर ।
19. आईसी-14586 मेजर जनरल राजेन्द्र पंडित, सेमे, 4 गोरखा राइफल ।
20. आईसी-16782 मेजर जनरल राना सुधीर कुमार कपूर, विसेमे, विसेमे, इंजीनियर्स/मुख्यालय एससी ।
21. आईसी-17267 मेजर जनरल राकेश दास, सेमे, विसेमे राजपूताना राइफल ।
22. आईसी-32569 ब्रिगेडियर महेश इराना, सेमे, विसेमे, गढ़वाल राइफल/120 इन्फैंट्री ब्रिगेड ।
23. रियर एडमिरल अविनाश मंजनाब वसेलंग, विसेमे (40262 बी) ।
24. रियर एडमिरल निर्मल प्रशाह गुप्ता, विसेमे (40339-बी) ।
25. रियर एडमिरल महेन्द्र प्रताप तनेजा नौमे, विसेमे, (01090-ए) ।
26. रियर एडमिरल विजय शंकर (01088-वाई) ।
27. रियर एडमिरल अशोक कुमार कालडा, विसेमे (50109-एच) ।
28. रियर एडमिरल निर्मल कुमार वमा (01139-एन) ।
29. रियर एडमिरल संजीव कपूर (01005-एच) ।
30. रियर एडमिरल रविचंद्र कोछड़ नौमे, वीएसएम (00752-एच) ।
31. रियर एडमिरल कीजपल्ली मोहनन (00855-टी) ।
32. रियर एडमिरल सग्राम सिंह बायस, नौमे (00883-एफ) ।
33. एयर वाइस मार्शल रामेश्वर नाथ (8913), एयरोनाटिकल इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी) (मेवानिवृत्त) ।
34. एयर वाइस मार्शल नईयर ईकबाल रज्जावकी (9642) प्रशासन ।
35. एयर वाइस मार्शल शरद यशवंत मन्वर (10525) फ्लाइट (पायलट) ।
36. एयर वाइस मार्शल थिरुवेंकटम रामानुजम, विसेमे (10695) एयरोनाटिकल इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी) ।
37. एयर कमोडोर फनी लोमी मेजर, शौर्य ब्रह्म, वामे, (11442) फ्लाइट (पायलट) ।
38. एयर कमोडोर (श्रीमती) पद्मावती बदोपाध्याय, विसेमे, (11528) मेडिकल ।
39. एयर कमोडोर महेश्वर दत्त, क्रीति ब्रह्म (11607) फ्लाइट (पायलट) ।
40. एयर कमोडोर सेल्वम कुलन्दयमामी जयराजन, विसेमे, (11695) परिभारिकी ।
41. एयर कमोडोर यशवंत राव गण, वामे (12210), फ्लाइट (पायलट) ।
42. एयर कमोडोर मदानिवन राधाकृष्णन, (12408) फ्लाइट (पायलट) ।
43. एयर कमोडोर वामीनाथन गोपालकृष्णा विसेमे (12437) एयरोनाटिकल इंजीनियर (यांत्रिकी) ।
44. जीओ-1253-एफ चौफ इंजीनियर (ईएंडएम) हंसराज विसेमे ।

व रण मित्रा
निदेशक

सं० 112 प्रेज/2002 —राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल—बार" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. आईसी-15492 मेजर जनरल रणजीत सिंह नागरा, विसेम आर्टिलरी / आर्टिलरी स्कूल ।
2. आईसी-17587 मेजर जनरल बलबीर सिंह विसेम, बिहार/39 माउंटेन डिविजन ।
3. आईसी-26046 मेजर जनरल सीबास्तियन थामस मनिमाला, विसेमे, आईएनटी/एमआई प्रशिक्षण स्कूल ।
4. 19853 ब्रिगेडियर अरविंद महाजन, विसेमे, इएमई ।
5. आईसी-19873 ब्रिगेडियर पुस्तमम राजागंगाधरन, विसेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री ।
6. आईसी-25060 ब्रिगेडियर गुरदर्शन सिंह ग्रेवाल, विसेम, इन्फैंट्री/मुख्यालय-2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल ।
7. आई सी-28212 ब्रिगेडियर रमेश दीक्षित, विसेमे, इन्फैंट्री (सेवानिवृत्त) ।
8. आईसी-29732 ब्रिगेडियर विजय कुमार बत्ता, विसेमे, 1 गोरखा राइफल/मुख्या० 181 माउंटेन ब्रिगेड ।
9. एमआर 03434 कर्नल हीरा लाल ककरिया, विसेमे, एएमसी/एमएच किरकी ।
10. ग्रुप कैप्टन गुरविंदर जीत सिंह चीमा, विसेमे, (14292), फ्लाइट (पायलट) ।

बरुण मिश्रा
निदेशक

सं० 113-प्रेज/2002 —राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. आईसी-16543 लफ्टि० जनरल बलराज सिंह तमखर, कवचित्त कोर ।
2. आईसी-14401 मेजर जनरल गुरजीत सिंह रंभावा, कवचित्त कोर/एसी सेंटर एवं स्कूल ।
3. आईसी-14871 मेजर जनरल विजेन्द्र कोरनीलियम, इएमई/मुख्यालय सेट्रल कमान (सेवानिवृत्त) ।
4. आईसी-16250 मेजर जनरल रघुबीर सिंह शहरावत, एओसी ।
5. आईसी-16682 मेजर जनरल रणजीत गजानन ताडकर्णी, एएमएसआई/सीआईएफ (बी) ।
6. आई-17059 मेजर जनरल नलिन कुमार जोषडा, सिग्नल/मुख्यालय एससी ।
7. आई-17214 मेजर जनरल मानिकत गोविन्दन गिरीश, इएमई ।

8. आईसी-17226 मेजर जनरल रतन दीप सिंह, सिग्नल/मुख्यालय ईसी ।
9. आईसी-17279 मेजर जनरल चरनजीत सिंह, आर्टिलरी/
10. आईसी-17631 मेजर जनरल अशोक वासुदेव, आर्टिलरी मुख्यालय 14 कोर ।
11. आईसी-17637 मेजर जनरल कुलवीर सिंह सिन्धु, कवचित्त कोर/डीआईपीएमी ।
12. आईसी-19440 मेजर जनरल सुधीर अर्मा, गार्ड्स ।
13. आईसी-19868 मेजर जनरल मरबजीत सिंह किल्ला, ग्रनेडिसर्स ।
14. आईसी-17263 ब्रिगेडियर मोहन स्वामीनाथन, इंजीनियर/मुख्यालय, सीमा सड़क निदेशालय ।
15. आईसी-17421 ब्रिगेडियर विजय कुमार राय, डोगरा/मुख्यालय वेस्टर्न कमान (सेवानिवृत्त) ।
16. आईसी-17645 ब्रिगेडियर उपेन्द्र सिंह क्लेअर, कवचित्त कोर/मुख्यालय 12 कोर ।
17. आई-17772 ब्रिगेडियर गजवन्त सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर/डीजीबीआर ।
18. आईसी-19447 ब्रिगेडियर प्रकाश नारायण मेहरा, मैकनाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय इलाहाबाद सब एरिया ।
19. आईसी-23899 ब्रिगेडियर कृष्णली थपेनाथोवितल गोपीनाथन नाम्बियार, आर्टिलरी/मुख्यालय मेरठ सब एरिया ।
20. आईसी-24504 ब्रिगेडियर रामप्पागरी रवीन्द्रनाथ चौधरी, इएमई/सीडीएम ।
21. आईसी-25097 ब्रिगेडियर देवेंद्र मिश्र अर्वा, राजपूत/मुख्या० 87 माउंटेन ब्रिगेड ।
22. आईसी-25213 ब्रिगेडियर मुकेश मबरवाल, राजपूत/मुख्यालय 9 सेक्टर ।
23. आईसी-25178 ब्रिगेडियर राणा गोस्वामी, आर्टिलरी/21 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड ।
24. आईसी-25469 ब्रिगेडियर करण सिंह यादव, 3 गोरखा राइफल/मुख्यालय 6 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल ।
25. आईसी-25550 ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह, आईएन टी/मुख्यालय ईसी ।
26. आईसी-28035 ब्रिगेडियर ईश्वर सिंह जाधु, जाट/मुख्यालय 7 सेक्टर असम राइफल (सेवानिवृत्त) ।
27. आईसी-29704 ब्रिगेडियर राज सीधापति, एएमएस-आई/मुख्यालय 53 इन्फैंट्री ब्रिगेड ।
28. आईसी-30216 ब्रिगेडियर हरीश जीत सिंह रंभावा कोर/मुख्यालय 4 कोर ।

- 29 आईसी-32411 ब्रिगेडियर मनोहर बत्रा/या, कवचित
मुख्यालय 33 माउण्टेन ब्रिगेड
- 30 एमआर-02051 ब्रिगेडियर भामिनीपति बदानन्दा,
एमसी/एमएच किरकी
- 31 एमआर-02064 ब्रिगेडियर रामजीराय, एमसी/
92 बीएच
- 32 एमआर-01115 ब्रिगेडियर जय प्रताप सिंह, सेना
मिलिटरी कार
- 33 एमआर-02745 ब्रिगेडियर जगत कुमार वर्मा,
एमसी/एमएच जालधर।
- 34 डीआर-1011 ब्रिगेडियर प्राण नाल पवक,
एमसी/एमएमसी
- 35 आईसी-23470 ब्रिगेडियर राम अवतार सिंह, जाट/
मुख्यालय 21 एच एरिया (सेवानिवृत्त)
- 36 आईसी-26521 ब्रिगेडियर सतीश कुमार भसीन,
इन्फेण्ट्री (सेवानिवृत्त)
- 37 आईसी-28531 ब्रिगेडियर तेज कृष्ण शील, इन्फेण्ट्री
- 38 आईसी-2531 सेना रवि शंकरराव, ईएमई
- 39 आईसी-27580 कर्नल प्रति ताना आईसी/डीपीआर
- 40 आईसी-30091 कर्नल यशवीर सिंह अहलावत,
जाट
- 41 आईसी-30708 कर्नल अशाक कुमार चौधरी, महार/
/8 जसम राइफल
- 42 आईसी-35124 कर्नल पारवगदा मादपा कारियपा
सिगनल/11 आई इन्फेण्ट्री
- 43 आईसी-35965 कर्नल राजेन्द्र रामराव निम्भोरकर,
एमएम, 15 एचएच
- 44 आईसी-38024 कर्नल लैफकप्तम निशिकान्त सिंह
आईएमटी/मुख्यालय 1 कार
- 45 आईसी-38441 कर्नल दिवाकर डागरा 10 मद्रास
- 46 आईसी-38679 कर्नल अभय कृष्णा, एमएम, राज-
ताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
- 47 एमआर-03385 कर्नल वेद प्रकाश पठानिया, ए
एमसी/एमएमसी
- 48 एमआर 03387 कर्नल प्रदीप कुमार, एमएमसी/
एमएमसी एच
- 49 एमआर-03108 कर्नल गोविंद प्रसाद शर्मा, एमएमसी/
सीएम/एमसी
- 50 एमआर-02848 कर्नल पुतियवीरिय मधुसूदन,
एमएमसी/एमएच (आर एण्ड आर)
- 51 एमआर-03534 (14304) ग्रुप कैप्टन निखाराम
महापात्रा, एमएमसी/92 बेस अस्पताल
- 52 एमआर-04036 कर्नल आलोक कुमार दुबे, एमएमसी/
सीएम (एमसी)
- 53 डीआर-10270 कर्नल गुरेन्ट भूषण राटअपाल, आर्मी
हेटल कार/एमडीसी सिक्करावाड
- 54 डीआर-10310 कर्नल सुबोध कुमार अग्रवाल, आर्मी
हेटल कोर/सीएमडीसी (एमसी)
- 55 आईसी-40399 लेफ्टि० कर्नल दिनेश शर्मा, आई
एमटी/इन्फेण्ट्री
- 56 एमआर-04073 लेफ्टि० कर्नल अश्विका प्रसाद मोहन्ती,
एमएमसी/92 बेस अस्पताल
- 57 एमआर-04320 लेफ्टि० अशोक हमलाकर अघाणे,
एमएमसी/92 बेस अस्पताल
- 58 एमआर-04568 (16767) विंग कमांडर गरप्रीत
सिंह सध, सेना विक्रिया कोर/एमएच भुज
- 59 एमआर-15726 लेफ्टि० कर्नल मुदर्शन देवी,
मिलिटरी जेम्स मविण, एमएम/एमसी)
- 60 आईसी-42357 मेजर एन० के० वेण्टेश, सेना
वैमानिकी/एमएम
- 61 एमआर-आईसी-45091 मेजर अश्विनी कुमार
एमटी/मुख्यालय 12 कोर
- 62 आईसी-51083 मेजर सर्वजीत सिंह सोई, सिगनल/
एमआईएमओ
- 63 एमआर-06225 मेजर सुन्दरम गुरम कुमार, ए
एमसी/एमएच किरकी
- 64 28963 कमांडेंट शैतान सिंह चहर, 181 ब्रीगमएफ
बटालियन ।
- 65 रियर एडमिरल अनिल कुमार हाडा, (40388-
आर) ।
- 66 कमांडोर अमरजीत सिंह बाजवा, (00861-एफ) ।
- 67 कमांडोर थॉम। माइकल जवाहर चेंपियन (50266-
आर) ।
- 68 कमांडोर रणबीर तलवार, (01138-के) ।
- 69 कमांडोर अशोक कुमार (60204-ए) ।
- 70 कमांडोर माहेश्वर कुमार बंधार (40474-के) ।
- 71 कैप्टन समीर चक्रवर्ती (01391-के) ।
- 72 कमांडोर शेड्सुरि ब्रेकट शोभासारी (50433-इन्फेण्ट्री) ।

73. कप्तान रंजन सेठ (01421-बी) ।
74. कप्तान ताडेपल्ली हरीराम (01506-वाई) ।
75. कप्तान अरविन्द बी शिन्गांव (01675-एफ) ।
76. कप्तान जयपाल पलानीप्पन (01867-टी) ।
77. कमांडर डॉन जयकुमार शिवा (0209एन) ।
78. कमांडर शंकर मनीष (02100-वाई) ।
79. सर्जन कमांडर रवि कालडा (75281-टी) ।
80. पारसनाथ पाण्डेय, एमसीईआरए (187017-आर) ।
81. राज कुमार सिंह यादव, एमसीएमईसीएच (एएल) 11 एनओ 141348-वाई ।
82. कप्तान सुरेश कुमार (60189-टी) ।
83. कप्तान जिव्र एंथोनी जोसेफ कोरेथ (00902-जेड)
84. कप्तान सुबोधवासुदेव पुरोहित, एमसी, एनएम (01066-वाई) ।
85. कप्तान कमलेश चंद्र चौधरी (01528-वाई) ।
86. कमांडर आलोक कुमार पाठक (02717-जेड) ।
87. कमांडर (टीएच) घनेश बरुशी (01661-जेड) ।
88. कमांडर (एमडीएमई) हजूराम सिंह (85088-एफ) ।
89. नरेन्द्रनाथ, सीपीओ (एमयूएस) एनओ 188261-टी ।
90. एयर कप्तान अरुण कुमार खन्ना, (10401) वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) (सेवानिवृत्त) ।
91. एयर कप्तान अरविन्द जीत सिंह वालिया (12155), प्रशासन ।
92. एयर कप्तान उजागर सिंह (12476), वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) ।
93. एयर कप्तान शंकरय्या गुरुपादय्या अल्लीमट्टी (11912) वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) ।
94. एयर कप्तान विपिन कुमार (11950) परिभारिकी
95. एयर कप्तान विदवा चोगपा नंजप्पा (13246), फ्लाइटिंग (पायलट) ।
96. ग्रुप कप्तान सज्जाद रहीम (13031) वैमानिक इंजीनियर (यांत्रिकी) ।
97. ग्रुप कप्तान जगजीत सिंह गंड्योक (13216) प्रशासन
98. ग्रुप कप्तान गुडीपुडी राजेन्द्र प्रसाद (13236), प्रशासन
99. ग्रुप कप्तान अभय गुप्ता (13241) फ्लाइटिंग (पायलट) ।
100. ग्रुप कप्तान रजनीश खन्ना (13296) वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
101. ग्रुप कप्तान अन्न कुमार गोमोई (13382) फ्लाइटिंग (पायलट) ।
102. ग्रुप कप्तान अनिल कुमार खोन्ला (13534) वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) ।
103. ग्रुप कप्तान सिम्हाकृष्णी वर्धमान, वामे, (13606), फ्लाइटिंग (पायलट) ।
104. ग्रुप कप्तान विजय कुमार वाली, वामे (13787), फ्लाइटिंग (पायलट) ।
105. ग्रुप कप्तान तन्वीर सिंह डांडा (13926) फ्लाइटिंग (पायलट) ।
106. ग्रुप कप्तान मोहित कुमार वामे, (14074) फ्लाइटिंग (पायलट) ।
107. विंग कमांडर सितेन्द्र सिंह (13667) प्रशासन ।
108. विंग कमांडर गोपाल राम शर्मा (14047) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर ।
109. विंग कमांडर प्रभात कुमार सिन्हा (14380) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर ।
110. विंग कमांडर नरेन्द्र कुमार कालरा (14397) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर ।
111. विंग कमांडर श्यामल कुमार चक्रवर्ती (15910) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर ।
112. विंग कमांडर देवेन्द्रसिंह रावत (16242) फ्लाइटिंग (पायलट) ।
113. विंग कमांडर वैकट रमणा मन्था (17284), वैमानिकी इंजीनियर (यांत्रिकी) ।
114. स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार लाहिड़ी (18001) वैमानिकी इंजीनियर (यांत्रिकी) ।
115. स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र कुमार शर्मा (18659), लेखा
116. स्क्वाड्रन लीडर दावेश सिंह (20255) वैमानिकी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) ।
117. 257365 मास्टर वारंट अफसर मृत्यु प्रकाश द्विवेदी, रडार फ़िटर ।
118. 607784 वारंट अफसर कलसिल पुष्पकन, इलेक्ट्रिकल फ़िटर ।
119. जीओ-0759 चीफ इंजीनियर (सिव) रमन सिंह ।
120. जीओ-1315 ड्यू एमई (सी) एमजी त्रिलोक नाथ भटनागर ।
121. जीओ-1451 एम एमई (पी) एमजी विरेन्द्र कुमार यादव ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं० 114-प्रेज/2002--राष्ट्रपति, त्रिनेडियर सोली नोशीर पावरी (आईसी-25062), कुमार, मुख्यालय 109 इंडिया त्रिनेड को जड़ों के दौरान उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करने है ।

बरुण मित्रा
निदेशक

सं० 115-प्रेन/2002—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल-द्वारा" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं —

1. आईसी-15180 मेजर सुभाष चन्द्र सिपत्रिया, मे. मे. 14 गढ़वाल राइफल ।
2. आईसी-50091 मेजर विवेक सिंह बिष्ट, मे. मे. 1 पैरा (एमएफ) ।
3. आईसी-000110 कैप्टन जॉनी जॉसेफ, मे. मे. 8 मराठा लाइट इन्फैंट्री ।

बहुरण मित्रा
निदेशक

सं० 116 प्रेड/2002—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. आईसी-36674 कर्नल कुलभषण मडार, 20 सिख ।
2. आईसी-37555 कर्नल विनोद गुलाब राव खण्डारे, 14 गढ़वाल राइफल ।
3. आईसी-36306 लेफ्टि० सुनील कक्कड, आर्टिलरी/93 जीएल सेक्टर ।
4. आईसी-42510 मेजर आंडम प्रकाश गुनिया, 16 बिहार ।
5. आईसी-46112 मेजर विक्रान्त सिंह, यांत्रिक इन्फैंट्री/15 राइफल (11 ग्रेनेडियर्स) ।
6. आईसी-46225 मेजर कुलवंत सिंह, इंफैंट्री/एनआईएम उत्तराकाशी ।
7. आईसी-46955 मेजर अणु मन्मेना, सिख, 6 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरान्त) ।
8. आईसी 48357 मेजर कुलकर्णी रघुनाथ थार, 3 सिख ।
9. आईसी-52780 मेजर अनुराग सिंह रावत, यांत्रिक इन्फैंट्री, 14 राजपूत ।
10. आईसी-54969 मेजर अमिताभ झा, 1/4, गोरखा राइफल ।
11. आईसी-56861 मेजर एबल किशोर, 2 सिख ।
12. आईसी-661 मेजर रजनीत सिंह, 7 सिख ।
13. एमएस-37198 मेजर मदीप सिंह, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री ।
14. आईसी-52969 कैप्टन अनज सिंह लथरा, कश्चित/31 राष्ट्रीय राइफल ।
15. आईसी-53172 कैप्टन सनेन्द्र भदिक, मराठा लाइट इन्फैंट्री 17 अरम राइफल ।
16. आईसी-54458 कैप्टन अमरवीर सिंह, एयर डिफेंस आर्टिलरी/20 अरम राइफल ।
17. आईसी-55386 कैप्टन अरोल शंकर राव शेंडे, आर्टिलरी 31 राष्ट्रीय राइफल ।

18. आईसी-55555 कैप्टन रोबी जोर्ज, एयर डिफेंस आर्टिलरी/14 राष्ट्रीय राइफल ।
19. आईसी-56751 कैप्टन गिरीश उपाध्याय, मराठा लाइट इन्फैंट्री/8 अरम राइफल ।
20. आईसी-57015 कैप्टन विवेक पुरी, 11 अरम ।
21. आईसी-57031 कैप्टन सुशील कुमार पांडे, सिख लाइट इन्फैंट्री/2 राष्ट्रीय राइफल ।
22. एमएस-37276 कैप्टन भूपेन्द्र सिंह खण्डका, 14 गढ़वाल राइफल ।
23. एमएस-37604 कैप्टन रमेश चन्द्र बडोला, 5 अरम ।
24. आईसी-59112 लेफ्टि० सुरेन्द्र पाल खर्वा, सेना आयुध कोर/1 सिख लाइट इन्फैंट्री ।
25. आईसी-59171 लेफ्टि० राजीव शंकर, सेना मेवा कोर/9 ग्रेनेडियर्स
26. आईसी-60551 लेफ्टि० कपिल गौड़, 3/11, गोरखा राइफल
27. आईसी-80966 विन्मोय सनाने, 9 ग्रेनेडियर्स
28. एमएस-37997 लेफ्टि० सत्यनंजय उपाध्याय, 24 राजपूत
29. एआर-215 सहायक कमांडेंट अशोक कुमार पाण्डेय, 7 अरम राइफल
30. जेसी 448319 सूबेदार हरशाद मोहम्मद, 4 ग्रेनेडियर्स
31. जेसी-458155 सूबेदार बन्धकान्त गवम, 6 मराठा लाइट इन्फैंट्री
32. जेसी-498507 सूबेदार भजन सिंह, 3 सिख
33. जेसी-508080 सूबेदार परमजीत सिंह, 11 सिख लाइट इन्फैंट्री
34. जेसी-568463 सूबेदार प्रीतपल सिंह, महार/30 राष्ट्रीय राइफल
35. जेसी-102822 नायब सूबेदार छबिलाल गुग्ग, 10 अरम राइफल
36. जेसी-262305 नायब सूबेदार बलवान सिंह, आर्टिलरी/169 फील्ड रेजिमेंट
37. जेसी-438826 नायब सूबेदार के. के. राजत, 18 मद्रास
38. जेसी-519049 नायब सूबेदार भोला नाथ शर्मा, 11 डोगरा
39. जेसी-519068 नायब सूबेदार किशोरी लाल मन्धोवा, 2 डोगरा (मरणोपरान्त)
40. जेसी-528735 नायब सूबेदार अर्जुन सिंह, 8 गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
41. जेसी-612308 नायब सूबेदार कोण बहादुर गुग्ग 1/4 गोरखा राइफल

42. जेसी-612326 नायक मुखेश राम बहादुर पन, 1/4 गोरखा राष्ट्रफल
43. जेसी-634267 नायक मुखेश कालिन्दा प्रसाद मिश्र, 3/11 गोरखा राष्ट्रफल
44. 2585477 हवलदार राणादेवन के पी, 18 मद्रास
45. 2778586 हवलदार राठोड जानीबा भाकराव, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
46. 2877433 हवलदार जगदीश प्रसाद पाट, 5 राण-पताना राष्ट्रफल
47. 3385987 हवलदार अमरजीत सिंह, मिश्र/6 राष्ट्रीय राष्ट्रफल (मरणोपरान्त)
48. 398918 हवलदार कलेशर वन्द, 2 डामरा
49. 4066298 हवलदार हीरा सिंह, 14 गढ़वाल राष्ट्रफल
50. 4263818 हवलदार हरि शंकर सिंह, 10 बिहार
51. 4549738 हवलदार महाबीर सिंह, 5 महार
52. 13615048 हवलदार वैलाम वन्द, 1 पैरा (एसएफ)
53. 13615768 हवलदार करनार सिंह, 1 पैरा (एसएफ)
54. 13746748 हवलदार मदन लाल, 8 जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रफल (मरणोपरान्त)
55. 4063092 लाम हवलदार दाता राम, गढ़वाल राष्ट्रफल/36 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
56. 4068349 लाम हवलदार उमेश सिंह, 14 गढ़वाल राष्ट्रफल
57. 2780175 नायक भाद गुधाकर नामदेव, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राष्ट्रफल (मरणोपरान्त)
58. 2786549 नायक माधव हरीबा मिररुट, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
59. 2891003 नायक बतन सिंह हुडा, 9 पैरा (एसएफ) (मरणोपरान्त)
60. 2991414 नायक सुमेश प्रसाद राय, 14 राजपत
61. 3983572 नायक शंभु लाल, डोगरा/11 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
62. 3986437 नायक लाल राम सैनी, डोगरा/71 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
63. 3996730 नायक कृपाल सिंह, डोगरा/31 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
64. 4181389 नायक राजेश्वर विठ्ठल, 9 पैरा (एसएफ)
65. 4558956 नायक विनोद शायक, 17 महार (मरणोपरान्त)
66. 5346210 नायक चारु बहादुर थापा, 1/4 गोरखा राष्ट्रफल
67. 9089362 नायक पन्वीर कुमार, 8 जम्मू एवं लाइट इन्फैंट्री
68. 9089495 नायक कृष्ण सिंह, 4 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
69. 13617877 नायक रामलाल कोशल, 6 पैरा
70. 13752383 नायक अर्जुन सिंह, जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रफल/28 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
71. 14379250 नायक वसुदेव बहादुर सिंह, एडी आर्टिलरी/15 राष्ट्रीय राष्ट्रफल ।
72. 2886712 लाम नायक कृष्ण लाल सिंह, 4 राजपूताना राष्ट्रफल/18 राष्ट्रीय राष्ट्रफल ।
73. 2988841 लाम नायक कृष्ण लाल सिंह, 4 राजपूत ।
74. 3393112 लाम नायक ताबहर सिंह, 29 सिख ।
75. 5347019 लाम नायक एरिक लेपेन, 1/4 गोरखा राष्ट्रफल ।
76. 5347543 लाम नायक लाल बहादुर थापा, 1/4 गोरखा राष्ट्रफल ।
77. 9095594 लाम नायक सुनीललाल, 8 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री ।
78. 15303715 लाम नायक रामलाल पन, 12, इंजीनियर रेजिमेंट ।
79. 2487861 सिपाही मुखनियार सिंह, पंजाब/7 राष्ट्रीय राष्ट्रफल (मरणोपरान्त) ।
80. 2488009 सिपाही लखविन्द सिंह, राजपूत/22 राष्ट्रीय राष्ट्रफल ।
81. 2603743 सिपाही इन्दुप्रा बिन्लाबाह मुखप्रा, 10 मद्रास (मरणोपरान्त) ।
82. 2790703 सिपाही अशोक शाल के 8, मराठा लाइट इन्फैंट्री/27 राष्ट्रीय राष्ट्रफल (मरणोपरान्त) ।
83. 2998199 सिपाही गाने सिंह परमार, 6 राजपूत ।
84. 3189590 सिपाही भूषण राणा, 7 पाट ।
85. 3396631 सिपाही गौरा सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राष्ट्रफल
86. 3396998 सिपाही राजविवर सिंह, सिख/16 राष्ट्रीय राष्ट्रफल ।
87. 3398878 सिपाही साहिब सिंह, 20 सिख
88. 4275725 सिपाही श्री निखाम कुमार, 4 बिहार ।
89. 4345281 सिपाही नाशी किंगर, 5 अरम रेजिमेंट ।
90. 4365766 सिपाही मंगल देव बरमन, 9 अरम रेजिमेंट
91. 4475854 सिपाही जगनार सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री/2 राष्ट्रीय राष्ट्रफल ।
92. 4570796 सिपाही हरमन्दर सिंह, 6 महार ।

- 93 14923010 सिदाही नननाम सिंह, यात्रिक इन्फैंट्री/9 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत) ।
- 94 2003541 राइफलमैन चन्द्र प्रकाश, 20 अंशम राइफल ।
- 95 2690613 राइफलमैन नामक चन्द ग्रेनेडियर/29, राष्ट्रीय राइफल ।
- 96 2889111 राइफलमैन महावीर सिंह शेखावत, 17 राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल ।
- 97 2889476 राइफलमैन जयपाल 11 राज राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल ।
- 98 4079017 राइफलमैन चन्द्र विशार, 15 गढ़वाल राइफल/36 राष्ट्रीय राइफल ।
- 99 5349127 राइफलमैन नर बहादुर गाहा थापा 1/4 गोरखा राइफल ।
- 100 5850232 राइफलमैन भक्ता मनी अधिकारी, 1/9 गोरखा राइफल ।
- 101 9049104 राइफलमैन विशार कुमार 4 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत) ।
- 102 9422062 राइफलमैन नित बहादुर तामाङ 3/11 गोरखा राइफल ।
- 103 9422948 राइफलमैन श्याम राई 3/11, गोरखा राइफल ।
- 104 2095006 ग्रेनेडियर निरंजना राय, 8 ग्रेनेडियर (मरणोपरांत) ।
- 105 9422624 पैराट्रॉप नवान तमाङ, 9 पैर (एसएफ)
- 106 14418393 गनर अशाक, आर्टिलरी/30 राष्ट्रीय राइफल ।
- 107 1048983 नवान दिनबाग सिंह, क्वचित वार / 27 राष्ट्रीय राइफल ।
- 108 15405871 सवार सुरन्द्र सिंह, क्वचित कोर/27 राष्ट्रीय राइफल ।
109. 90172462 फास्टेबल भावर लाल, 105 बटालियन सीमा सुरक्षा बल (मरणोपरांत) ।

वरुण मित्रा
निदेशक

सं 117 प्रोजे/2002—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/सेवा मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं —

- 1 कमांडर रवनीत सिंह, (0264(-एन)
 - 2 कमांडर सजय महेंद्र, (02797-एफ)
 - 3 लेफ्टिनेंट कमांडर नृसिंह कुमार (03602-क)
 - 4 हाकिम सिंह श्यामी, एल एस यमी, एनआ 17 (056-टी)
- वरुण मित्रा
निदेशक

सं 118-प्रोजे/2002—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों का असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं —

- 1 स्क्वाड्रन लीडर अनिल कुमार (18790) फ्लाइट (पायलट)
 - 2 स्क्वाड्रन लीडर मुनायफुल कथिल ज न (20155) फ्लाइट (पायलट)
 - 3 स्क्वाड्रन लीडर उचेटा गायपा कुटपा (20758) (पायलट)
 - 4 फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिलदो ग (23208) फ्लाइट (पायलट)
 - 5 फ्लाइट कप्तान मनिन सेता (2558) फ्लाइट (पायलट)
- वरुण मित्रा
निदेशक

सं 119-प्रोजे/2002—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों का असाधारण कर्तव्यपरायणता के कार्यों के लिए "सिमा मेडल/शाम मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं —

- 1 आईसी-16624 ब्रिगेडियर याग राज मदीरत्ता, इजीनियर/मुख्यालय 475 इजीनियर ब्रिगेड (सेवा निवृत्त)
- 1 आईसी-16898 ब्रिगेडियर विष्णु प्रण इजीनियर मुख्यालय 17 वार (सेवानिवृत्त)
- 1 आईसी 20299 ब्रिगेडियर मरथ प्रिय महला ग्रेनेडियर्स/मुख्यालय 75(1) इन्फैंट्री ब्रिगेड
- 4 आईसी-28308 ब्रिगेडियर लक्ष्मण विजयन, यात्रिक इन्फैंट्री मुख्यालय 31 इन्फैंट्री ब्रिगेड
- 5 आईसी 2970 ब्रिगेडियर जोशिवर सिंह 'सयान' वीर चक्र, पजाब मुख्यालय 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड ।
- 6 आईसी-32458 ब्रिगेडियर विलियम जेम्स बर्ड स्टर्जन्स, 8, गोरखा मुख्यालय 98 इन्फैंट्री ब्रिगेड ।
- 7 आईसी-31468 कर्नल मूनाल कुमार झा, 9 गोरखा राइफल 10 राष्ट्रीय राइफल ।
- 8 आईसी-34373 कर्नल अरुण चुध, आर्टिलरी/169 फील्ड रेजिमेंट ।
- 9 आईसी-35190 कर्नल बकुल चन्द्र शर्मा, ग बाल राइफल मुख्यालय 4 वार ।
- 10 आईसी-36387 कर्नल निकु कुलदीप कुमार, 111 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 11 आईसी-35500 कर्नल फतह सिंह 'व' मंगोल आर्टिलरी 90 मीडियम रेजिमेंट ।
- 12 आईसी-37407 कर्नल राजेश्वर सिंह, मराठा लाइट इन्फैंट्री ।
- 13 आईसी-38090 कर्नल जितेन्द्र सिंह मनगल, पैरा/31 राष्ट्रीय राइफल ।
- 14 आईसी-38357 कर्नल राज सिंह, 5 जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री ।
- 15 आईसी-38606 कर्नल बसन्त नारायण सिंह, 2 पजाब ।

- 16 आईसी-38625 कर्नल भरत दास पाण्डे, 110 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 17 आईसी-38732 कर्नल कृष्णलकर अरविंद गनेश, 1/4 गोरखा राइफल ।
- 18 आईसी-39144 कर्नल ज्ञान चंद अपीरस, मराठा लाइट इन्फैन्ट्री ।
- 19 आईसी-39185 कर्नल अजय कुमार शर्मा, 2 मिया
- 20 आईसी-39808 कर्नल गुरदीप सिंह, 17 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 21 आईसी-37660 लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह यादव आई० एन० टी० ।
- 22 आईसी-48450 मेजर यल्लकी शिव शंकर राव 17 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 23 आईसी-418627 नायब मुख्तियार युद्धवीर सिंह, मैके-गारड इन्फैन्ट्री ।
- 24 1551234 हवलदार भाता सिंह 103 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 25 282662 नायब हुना मुख्तियार राव इजीनियर/8(1) फाइट गार्ड ।
- 26 10418620 लाम नायक नर्मद कुमार आदिनगी/90 मोडियम रेजिमेंट ।
- 27 15317160 मेजर दशरथुना आदित्यवाती, 4 इजीनियर रेजिमेंट ।
- 28 आईसी-38357 कर्नल राजिन्द्र सिंह, सिद्ध/6 राष्ट्रीय राइफल ।

ब्रह्म मित्रा
निदेशक

स० 120-प्र ज/2002--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों का असाधारण कर्तव्यपरायणता के कार्यों के लिए "बायसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं --

- 1 कमांडर धीरकृष्णराव- जेठ गणेश (विसेमे (50325-जेड)
- 2 कमांडर विनेश प्रभाकर विसेमे, (4091-बी)
- 3 कॅप्टन राकेश पंडित, (01700-एन)
- 4 कॅप्टन रविन्द्र गायबवाड (01793-जेड)
- 5 कमांडर जोस जेवियर अराज (50645-ए)
- 6 कमांडर सुनील वी भोरुगे (02651-एफ)
- 7 कर्जने कमांडर रविन्द्र सिंह बेदी, (75313-आर)

2 12 5/70

- 8 नन्दन सिंह, सीएचएमई, एनओ 147829-ए
- 9 गियर एडमिरल सुरेन्द्र सिंह राव, विसेमे, (60163-एच)
- 10 गियर एडमिरल रुस्तम फमरोज कान्हेक्टर, 01224-एफ
- 11 कमांडर मकरन्द सीता राम जोशी, वीएमएम (00989-वाई)
- 12 कमांडर राजिन्द्र सिंह, विसेमे, (01427-ई.)
- 13 क्विजियर अदध किशोर सिंह, जविसेमे, विसेमे, आईसी-28192 वाई
- 14 कॅप्टन जे एस मान, (50701-बी)
- 15 कमांडर (एसडीएसडब्ल्यू) नन्द बल्लभ फुलेरा (81283-एच)
- 16 करम सिंह, एमसीपीओ सीके (ओ) 1, एनओ 059235-ए
ब्रह्म मित्रा
निदेशक

स० 121-प्र ज/2002--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों का असाधारण कर्तव्यपरायणता के कार्यों के लिए "बायसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं --

- 1 एयर कमांडर गुरदीप सिंह कोत्रर (13119) फ्लाइट (पायलट)
- 2 एयर कमांडर विक्रम कृष्णराव यजुर्वेदे (11248) फ्लाइट (पायलट)
- 3 युव कॅप्टन रवीनाथ गुरूराज बुली (1167) फ्लाइट (पायलट)
- 4 विंग कमांडर चेतन वाली (15708) फ्लाइट (पायलट)
- 5 विंग कमांडर राकेश आनन्द (15873) फ्लाइट (पायलट)
- 6 विंग कमांडर राकेश कुमार सिंह भदोचिया (16026) फ्लाइट (पायलट)
- 7 विंग कमांडर नलिन कुमार टंडन (16039) फ्लाइट (पायलट)
- 8 विंग कमांडर अजय कृष्णा (16774) फ्लाइट (पायलट)
- 9 विंग कमांडर अरविन्द्र सिंह बुटोला (16789) फ्लाइट (पायलट)
- 10 विंग कमांडर राजीव कुमार भेदिरत्ता (16794) फ्लाइट (पायलट)
- 11 विंग कमांडर विनोद रणभाषाम (16811) फ्लाइट (पायलट)
- 12 विंग कमांडर नागराजन्त बेक्टरमण (16994) फ्लाइट (पायलट)
- 13 विंग कमांडर योगेन्द्र राजौरा (17327) फ्लाइट (पायलट)

ब्रह्म मित्रा
निदेशक

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2002

सं० 6/9 गी-1/2001—दिनांक 3 जून, 2002 (सं० 2937), 7 जून, 2002 (सं० 2945) और 10 जून, 2002 (सं० 2946) के लोक सभा समाचार भाग- II में प्रकाशित त्रि-दिनांक परामर्श सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहे हैं—

सं० 2937

सूचना प्रायोगिकी संबंधी समिति से त्यागपत्र

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर ने 27-5-2002 से सूचना प्रायोगिकी संबंधी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

सं० 2945

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति
के लिए एक सदस्य का नामनिर्देशन

राज्य सभा के सभापति ने श्री नाबम रेबिया, राज्य सभा सदस्य को शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के लिए 4 जून, 2002 से एक सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया है।

संख्या 2946

उद्योग संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का
नामनिर्देशन

अध्यक्ष ने श्री धर्म राज सिंह पटेल का नामनिर्देशन धर्म और कल्याण संबंधी समिति में बदलकर उद्योग संबंधी समिति के लिए कर दिया है।

सी० एम० जून
उपसचिव

मानव सहायन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2002

संकल्प

सं० एफ० 6-8/2001-यू० 3—भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नियमों और विनियमों के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार सोसायटी की कार्यविधि सभापन होने पर एनद्द्वारा तीन वर्षों के लिए सोसायटी का निम्न रूप में पुनर्गठन करती है:—

3(क) सांस्थानिक सदस्य (पवेन)

1. सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
2. सचिव, व्यय विभाग, शिक्षा मंत्रालय

3. संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा), माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
 4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 5. महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान भवन, रफी अहमद मार्ग, नई दिल्ली
 6. अध्यक्ष, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्
 7. अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
 8. अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
 9. अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ग्रीन पार्क, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली
 10. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
 11. अध्यक्ष, ललित कला अकादमी, रविन्द्र भवन, नई दिल्ली
 12. अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, रविन्द्र भवन, नई दिल्ली
 13. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
 14. भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय परिषद्, आजाद भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के उपाध्यक्षों में से एक
 15. अध्यक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय मंच
 16. निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय
 17. महानिदेशक, अभिलेखागार और
 18. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
- 3(ख) मनोनित सदस्य
- (1) भारतीय विश्वविद्यालयों के केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित छ कुलपति
- (1) डा० बलवन्त जानी,
कुलपति,
उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय,
पी०बी० सं० 21, विश्वविद्यालय रोड,
पाटन-384265
 - (2) प्रो० के० एन० पाठक,
कुलपति,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चण्डीगढ़-160014
 - (3) श्री एस० बी० गिरि,
कुलपति,
श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान
प्रसन्धी निलयम्-515134
अनन्तपुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)

- (4) डॉ० के० के० द्विवेदी,
उप-कुलपति,
अरुणाचल विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, ईटानगर-791112।
- (5) डॉ० आर० डी० चौधरी,
उप-कुलपति
नेशनल म्यूजियम इन्स्टीच्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट
कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलोजी, जनपथ,
नई दिल्ली-110011।
- (6) डॉ० एन० मामटेन
उप-कुलपति,
सैट्रल इन्स्टीच्यूट आफ हायर तिब्यतन स्टडीज
भारनाथ, वाराणसी-221007।
- (11) 18-24 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित शिक्षा
शास्त्री
- (1) आर० सी० पाण्डेय राष्ट्रपति
सेवानिवृत्त उप-कुलपति,
राजस्थान/इलाहाबाद विश्वविद्यालय
11, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद-211002।
- (2) डॉ० लखन लाल मल्होत्रा उप राष्ट्रपति
भनपूर्व विदेश सचिव
सी-1/16 शीलाहारी
मोन्टेगु 31, नोएडा-201801 (उ० प्र०)।
- (3) प्रो० टी० पी० चट्टावाध्याय
25, पार्स मैसन
67-ए पार्क स्ट्रीट,
गुलकाना-700016।
- (4) श्री एम० डी० श्रीनिवास
नीति अध्ययन केन्द्र
मद्रास विश्वविद्यालय,
चेपोक, चेन्नई-600005।
- (5) प्रो० एम० पी० बनर्जी,
नीति अध्ययन केन्द्र, मद्रास विश्वविद्यालय,
चेपोक, चेन्नई-400005।
- (6) प्रो० मीरा श्रीवास्तव,
भूतपूर्व प्रोफेसर
हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
- (7) प्रो० कपिल कपूर
रेक्टर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
न्यू मेहरोली रोड,
नई दिल्ली-110068।
- (8) श्री बी० एन० टंडन,
निदेशक
के० के० बिरला फाउण्डेशन,
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
(10वां फ्लोर) 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001।
- (9) डॉ० योगानन्द काले,
सम-कुलपति,
नागपुर विश्वविद्यालय,
रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग,
नागपुर-440301।
- (10) डॉ० बा० के० जोशी,
भूतपूर्व उप-कुलपति
कुमाऊं विश्वविद्यालय
हाल में देहरादून।
- (11) डॉ० आर० सी० निगम
प्रोफेसर आफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007।
- (12) प्रो० भुवन चंदेल
दर्शन विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़-160014।
- (13) प्रो० थिम्मा रेडी
एन्थ्रोपोलोजी विभाग,
आन्ध्र विश्वविद्यालय
वाल्तेयर विद्यापत्तनम-530003।
- (14) प्रो० ए० के० सरन
सी 136, निराला नगर,
लखनऊ-226020।
- (15) प्रो० बी० एन० एम० यादव,
33/3 रट्टेले रोड,
इलाहाबाद-211002।
- (16) डॉ० गोपीचन्द नारग,
डी० 252, सर्वोदय एक्सेल,
नई दिल्ली-110017।
- (17) डॉ० अरुणा गोयल
प्रोफेसर, संस्कृत
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़-160014।
- (18) प्रो० एस० आर० भट्ट,
अध्यक्ष, दर्शन विभाग,
एम/पी एस-23 मोर्य एक्सेल,
प्रीतमपुरा दिल्ली-110034।

- (19) प्रो० आर० बालसुब्रह्मण्यम,
मीवाबाल
5, भागीरथी स्ट्रीट,
श्रीनिवासा एवेन्यू,
राजा अन्नामलाईपूरम
चेन्नई-600028।
- (20) प्रो० विरेन्द्रनाथ मिश्रा
जी-2, बी विंग, गंगा पार्क
मुधुषा रोड
पूणे-411036।
- (21) प्रो० एस० पी० सिंह
वाई बी-2, शाह विकास अपार्टमेंट्स,
68, आई० पी० गवसटेमन,
दिल्ली-110092
- (22) प्रो० अजन कुमार बनर्जी,
भूतपूर्व प्रोफेसर
पत्रकारिता एवं जनसंचार
वनारस हिन्द विश्वविद्यालय।
- (23) डॉ० कुमुदलता केडिया
प्रोफेसर सामाजिक विज्ञान
राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टडीज,
बानारसी।
- (24) प्रो० विनय चन्द्र पाण्डेय
इतिहास विभाग
उलाहाबाद विश्वविद्यालय
मिनेट हॉल उलाहाबाद-211 002।
- 3(ग) संस्थानक प्रतिनिधि
- (1) निर्देशक, भारतीय उच्च अध्ययन, संस्थान शिमला
- (2) वर्तमान समय के सभी अध्यक्षता
- (3) वर्तमान समय के सभी विशिष्ट अतिथि
- नियम 3(ग) (IV) के अनुसार डॉ० लकन लाल मेहरोत्रा को सोसायटी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।
- आदेश
आदेश किया जाता है कि संकल्प का सामान्य सूचनार्थ भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।
यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प का एक-एक प्रति राज्य सरकारों को भेजी जाए।
पी० क० गुप्ता, उप सचिव
नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2002
संकल्प
सं० एफ० 8-8/2001-यू०-3---भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के नियमों तथा विनियमों के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 11 अप्रैल 2002 के समसंख्यक संकल्प द्वारा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, की सोसायटी का पुनर्गठन किया है। केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित शिक्षाविदों की 18--24 की सूची में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं --
केन्द्र सरकार द्वारा नामित किये गये 18--24 शिक्षाविद विद्यमान प्रतिस्थापित किया जाए
प्रो० एस० पी० बनर्जी
नीति अध्ययन केन्द्र,
मद्रास विश्वविद्यालय,
चेन्नई, चेन्नई
प्रो० एस० पी० बनर्जी
भूतपूर्व कुलपति,
बर्दवान विश्वविद्यालय, अरुणखर
एफ० ई० 97, मकटर-III,
माल्ट लेक मिटो,
कोलकाता-700091
पश्चिम बंगाल।
आदेश
आदेश दिया जाता है कि संकल्प का सामान्य सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।
यह भी आदेश है कि संकल्प का एक-एक प्रति राज्य सरकारों को भेजी जाये।
पी० सुकमार, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2002

No. 109-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Param Vishisht Seva Medal" to the under-mentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. IC-13244 Lt Gen Sarah Jot Singh Saighal, VM, VSM Artillery
2. IC-13129 Lt Gen Ravindra Mohan Chadha, AVSM Engineers
3. IC-13954 Lieutenant General Surendra Kumar Jain AVSM, VSM Electronics and Mechanical Engineering

4. IC-14531 Lt Gen Onkar Singh Lohchab, AVSM, VSM, Infantry
5. IC-14541 Lt Gen Gopal Krishan Duggal, AVSM, VrC, Maratha Light Infantry
6. IC-14765 Lt Gen Dattatray Balajirao Shekatkar, Avsm, VSM Maratha Light Infantry
7. IC-15786 Lieutenant General Tejinder Singh Shergili, Armoured Corps
8. IC-15861 Lt Gen Vijay Kumar Kapoor, Armoured Corps
9. IC-15938 Lieutenant General Arjun Ray, VSM, Mech Infantry
10. MR-01652 Lt Gen Ravinder Kumar Jetlev, VSM, Army Medical Corps

11. MR-01987 Lt Gen Harcharan Singh, Army Medical Corps
12. Vice Admiral Arun Prakash, AVSM, VrC, VSM, (00590-R)
13. Vice Admiral Raman Puri, AVSM, VSM, (00604-Y)
14. Vice Admiral Madan Jit Singh, AVSM, (00614-W)
15. Surgeon Vice Admiral Hara Prasad Mukherjee, AVSM, VSM (75091-K)
16. Air Marshal Sriperumbudur Raghavan AVSM VSM (6710) Logistics (Retd.)
17. Air Marshal Manjit Singh Sekhon VrC SC VM (6736), Flying (Pilot)
18. Air Marshal Proteep Kumar Ghosh AVSM VSM (7106) Aeronautical Engineering (Electrical) (Retd)
19. Air Marshal Michael Mc Mahon AVSM VM MD (7399) Flying (Pilot)
20. Air Marshal Teja Mohan Asthana AVSM VM (7672) Flying (Pilot)
21. Air Marshal Manek Bomanshaw Madon AVSM, VM & BAR (7681) Flying (Pilot)

BARUN MITRA
Director

No. 110-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguish service of an exceptional order :—

1. IC-14381 Major General Sudhir Chander Chopra, AVSM, PARA
2. IC-17291 Major General Ravinder Nath Kapur, AVSM, 4 GR/HQ IGAR (N)

BARUN MITRA
Director

No. 111-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. IC-14405 Lieutenant General Kamalleshwar Davar, Armoured Corps
2. IC-15403 Lt General Dharam Parkash Sehgal, VSM, Signals
3. IC-15787 Lieutenant General Mahesh Vij, MCH Itanry/HQ 4 Corps
4. MR-01817 Lt General M. A. Tutakne, VSM, AMC/AFMC Pune
5. IC-15847 Major General Bharat Nath Kaul, VSM, Para
6. IC-16953 Major General Rajinder Singh, VSM, Artillery/HQ 28 Inf Div
7. IC-17206 Major General Anup Singh Jamwal, VSM, Artillery/HQ 21 Mtn Div
8. IC-17240 Major General Richard Khare, SM, VSM, 5 GR/HQ Cif(R)
9. IC-17244 Major General Nirbhay Sharma, VSM, Para/HQ Cif (K)
10. IC-17252 Major General Pramod Kumar Grover, VSM, Engineers/HQ 26 Inf Div
11. IC-17266 Major General Narayan Singh Pathania, VSM, 5 GR/HQ 25 Inf Div
12. IC-17609 Major General Iqbal Singh, VSM, Guards/H/Q 57 Mtn Div
13. IC-20760 Major General Keshav Chander Padha, VSM, Infantry (Para)/CDM
14. IC-26279 Major General Dalvir Singh, VrC, VSM, Para/HQ Cif(K)

15. IC-15018 Major General Narendra Prakash Aul, Engineers/HQ SC
16. IC-16796 Major General Virender Singh Budhwar, VSM, Kumaon/12 Corps
17. MR-02325 Major General Vijay Waman Tilak, VSM, AMC
18. MR-02600 Major General Janak Raj Bhardwaj, VSM, AMC
19. IC-14586 Major General Rajendra Pandit, SM, 4 Gorkha Rifles (Retd.)
20. IC-16782 Major General Rana Sudhir Kumar Kapur, SM, VSM, Engineers/HQ SC
21. IC-17267 Major General Rakesh Dass, SM, VSM, Rajputana Rifles
22. IC-32569 Brigadier Mahesh Eranna, SM, VSM, Garhwal Rifles/120 Inf BDE
23. Rear Admiral Avinash Manjanath Telang, VSM (40262-B)
24. Rear Admiral Nirmal Parshad Gupta, VSM, (40339-B)
25. Rear Admiral Mahendra Pratap Taneja, NM, VSM, (01090-A)
26. Rear Admiral Vijay Shankar, (01088-Y)
27. Rear Admiral Ashok Kumar Kastra, VSM, (50197-H)
28. Rear Admiral Nirmal Kumar Verma, (01139-N)
29. Rear Admiral Sanjiv Kapoor, (01005-H)
30. Rear Admiral Ravi Chander Kochhar, NM, VSM (00752-H)
31. Rear Admiral Kizhupalli Mohanan, 00855-T
32. Rear Admiral Sangram Singh Byce, NM, (00883-F)
33. Air Vice Marshal Rameshwar Nath (8913) Aeronautical Engineering (Electronics) (Retd)
34. Air Vice Marshal Naiyer Iqbal Razzaqui (9642) Administration
35. Air Vice Marshal Sharad Yeshwant Savur (10525) Flying (Pilot)
36. Air Vice Marshal Thiruvengadam Ramanujam VSM (10695) Aeronautical Engineering (Electronics)
37. Air Commodore Fali Homi Major SC VM (11442) Flying (Pilot)
38. Air Commodore (Mrs) Padmavathy Bandopadhyay VSM (1528) Medical
39. Air Commodore Maheshwar Dutt KC (11607) Flying (Pilot)
40. Air Commodore Selvam Kulandaisami Jayarajan VSM (11695) Logistics
41. Air Commodore Yashwant Rao Raue VM (12210) (Flying (Pilot))
42. Air Commodore Sadasivan Radhakrishnan (12408), Flying (Pilot)
43. Air Commodore Swaminathan Gopalakrishna, VSM (12437) Aeronautical Engineer (Mechanical)
44. GO-1253-F Chief Engineer (E&M) Hans Raj, VSM

BARUN MITRA
Director

No. 112-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. IC-15492 Major General Ranjit Singh Nagra, VSM, Artillery/School of Arty
2. IC-17587 Major General Balbir Singh, VSM, Bihar/39 Mountain DIV

3. IC-20546 Major General ~~Sebastian Thomas Manthala~~, VSM INT/MI Trg School
 4. IC-19853 Brigadier Arvind Malhotra, VSM, EME
 5. IC-19873 Brigadier Puttammadam Rajah Gangadharan VSM Maratha Light Infantry
 6. IC-25060 Brigadier Gurdarshan Singh Grewal, VSM, Infantry/HQ 2 Sector Rashtriya Rifles
 7. IC-28212 Brigadier Ramesh Dixit, VSM, Infantry (Retd.)
 8. IC-29732 Brigadier Vijay Kumar Datta, SM**, VSM, 1 Gorkha Rifles/HQ 181 MTN BDE
 9. MR-03434 Colonel Pira Lal Kakria, VSM, AMC/MH Kirkee
 10. Group Captain Gurwinder Jeet Singh Cheema VSM (14292), Flying (Pilot)
- BARUN MITRA
Director
- No. 113-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—
1. IC-16543 Lieutenant General Balraj Singh Takhar, Armoured Corps
 2. IC-14401 Major General Gurjit Singh Randhawa, Armoured Corps/AC Centre and School
 3. IC-14871 Major General Brijendra Cornelius, BME/HQ Central Command (Retd.)
 4. IC-16250 Major General Raghbir Singh Shahrawat, AOC
 5. IC-16682 Major General Ranjit Gajanan Nadkarni, MLI/CIF(V)
 6. IC-17059 Major General Lalit Kumar Chopra, Signals/HQ SC
 7. IC-17214 Major General Manikath Govindan Guish, EME
 8. IC-17226 Major General Rattan Deep Singh, Signals/HQ EC
 9. IC-17279 Major General Charanjit Singh, Artillery
 10. IC-17631 Major General Ashok Vasudeva, Arty/HQ 14 Corps
 11. IC-17637 Major General Kuldip Singh Sindhu, Armoured Corps/DIPAC
 12. IC-19440 Major General Sudhir Sharma, Guards
 13. IC-19868 Major General Sarabjit Singh Dhillon, Grenadiers
 14. IC-17263 Brigadier Mohan Swaminathan, Engineers/HQ DGBR
 15. IC-17421 Brigadier Vijay Kumar Rai, Dogra/HQ WC (Retd.)
 16. IC-17645 Brigadier Upinder Singh Klair, Armoured Corps/HQ 12 Corps
 17. IC-17772 Brigadier Rajwant Singh Grewal, Engineers/DGBR
 18. IC-19447 Brigadier Prakash Narain Mehra, Mechanised Infantry/HQ Allahabad Sub Area
 19. IC-23899 Brigadier Koodali Thazhathveetil Gopinathan Nambiar, Artillery/HQ Meerut Sub Area
 20. IC-24504 Brigadier Ramappagari Ravindranath Chowdary, EME/CDM.
 21. IC-25097 Brigadier Devendra Singh Atri, Rajput/HQ 87 Mountain Brigade.
 22. IC-25213 Brigadier Mukesh Sabharwal, Rajput/HQ 9 Sector.
 23. IC 25178 Brigadier Rana Goswami, Artillery/21 Mtn Arty Bde.
 24. IC-25469 Brigadier Karan Singh Yadava, 3 Gorkha Rifles/HQ 6 Sector Rashtriya Rifles.
 25. IC-25550 Brigadier Amarjit Singh, Int, HQ EC
 26. IC-28035 Brigadier Ishwar Singh Janghu, JAT/HQ 7 Sector Assam Rifles (Retd.)
 27. IC 29704 Brigadier Raj Seethapathi, MLI/HQ 53 Inf Bde
 28. IC 30216 Brigadier Harish Jit Singh, SC Army Service Corps/HQ 4 Corps
 29. IC-32411 Brigadier Manohar Khajuria, Armoured/HQ 33 Mtn Bde
 30. MR-02051 Brigadier Bhomdipati Sadananda, AMC/MH Kirkee
 31. MR-02064 Brigadier Ramji Rai, AMC/92 BH
 32. MR-02462 Brigadier Ajai Pratap Singh, Army Medical Corps
 33. MR-02745 Brigadier Ajit Kumar Bakhshi, AMC/MH, Jalandhar
 34. DR-10216 Brigadier Bhushan Lal Sapru, ADC/AFMC
 35. IC-23370 Brigadier Ram Avtar Singh, Jat/HQ 21 Sub Area (Retired)
 36. IC-26521 Brigadier Satish Kumar Bhasin, Infantry (Retd.)
 37. IC-28331 Brigadier Tej Krishen Kaul, Infantry
 38. IC 25826 Colonel Ravi Khetarpal, EME
 39. IC-27580 Colonel Shruti Kant, AEC/DPR
 40. IC-30094 Colonel Dharamvir Singh Ahlawat, Jat
 41. IC-30708 Colonel Ashok Kumar Choudhary, Mahar/8 Assam Rifles
 42. IC-35124 Colonel Parvangada Madappa Cariappa Signals/11 I W B
 43. IC-35965 Colonel Rajendra Ramrao Nimbhorkar, SM SM, 15 Punjab
 44. IC-38024 Colonel Laxhkrampam Nishikanta Singh, Int/HQ 4 Corps
 45. IC-38441 Colonel Diwaker Dogra, 10 Madras
 46. IC-38679 Colonel Abhay Krishna, SM Rajputana Rifles/18 Rashtriya Rifles
 47. MR-03385 Colonel Ved Prakash Pathania, AMC/AFMC
 48. MR-03387 Colonel Pradeep Kumar, AMC/ALC Pune
 49. MR-03408 Colonel Govind Prasad Sharma, AMC/CH (SC)
 50. MR-02848 Colonel Puthiyaveetil Madhusoodanan, AMC/AH (R&R)
 51. MR-03534 (14304) Group Captain Sibaram Mahapatra, AMC/92 Base Hospital
 52. MR-04036 Colonel Alok Kumar Dubey, AMC/CH (SC)
 53. DR-10770 Colonel Surrinder Bhushan Schnajal, Army Dental Corps/MDC Secunderabad
 54. DR 10310 Colonel Subodh Kumar Agarwal, Army Dental Corps/CMDC (SC)

55. IC-40399 Lieutenant Colonel Dinesh Sharma, INT WWWF
56. MR-04073 Lieutenant Colonel Ambika Prasad Mohanty, AMC/92 BH
57. MR-04320 Lieutenant Colonel Ashok Kamalakar Agashe, AMC/92 Base Hospital
58. MR-04568 (16767) Wing Commander Gurpreet Singh Sandhu, Army Medical Corps/MH Bhuj
59. NR-15726 Lieutenant Colonel Sudeshan Devi, Military Nursing Service/CH (SC)
60. IC-42357 Major NK Venkatesh, Army Aviation/HAI.
61. IC-45091 Major Ashwani Kumar, Int/HQ 12 Corps
62. IC-51083 Major Savjit Singh Soan, Signals/Miso
63. MR-06225 Major Sundaram Suresh Kumar, AMC/MH Kirkee
64. 28963 Commandant Shaitan Singh Chahar, 181 BSF Bn
65. Rear Admiral Anil Kumar Handa, (40388-R)
66. Commodore Amarjit Singh Bajwa, (00861-F)
67. Commodore Thomas Michael Jawahar Champion (50266-R)
68. Commodore Ranbir Talwar, (01138-K)
69. Commodore Ashok Kumar (60204-A)
70. Commodore Mohinder Kumar Badhwar (40474-K)
71. Captain Samir Chakravorty (01391-K)
72. Commodore Sattaluri Venkata Seshachary, (50433-W)
73. Commodore Ranjan Seth, (01421-B)
74. Commodore Tadepalli Hari Ram (01506-Y)
75. Captain Arvind V Shiggaon (01675-F)
76. Captain Jayapal Pulanippan (01867-T)
77. Commodore John Jayakumar Siga (60209-N)
78. Commander Shankar Satish (02166-Y)
79. Surgeon Commander Ravi Kalra (75281-T)
80. Paras Nath Pandey, Meera I (187017-R)
81. Rajkumar Singh Yadav, McMech (AL) II, NO 141348-Y
82. Commodore Suresh Kumar (60189-T)
83. Commodore Trevor Anthony Joseph Koreth (00902-Z)
84. Commodore Subodh Vasudeo Purohit, SC, NM (01066-Y)
85. Commodore Kamallesh Chandra Choudhury (01528-Y)
86. Commander Alok Kumar Pathak (02717-Z)
87. Commander (TS) Dhanesh Bakshi (01661-Z)
88. Commander (SDME) Hazuta Singh (85088-F)
89. Narandranath, CPO MUS, NO 188261-T
90. Air Commodore Arun Kumar Khanna (10401), Aeronautical Engineer (Electronics) (Retd.)
91. Air Commodore Arvind Jeet Singh Walia (12155), Administration
92. Air Commodore Ujagar Singh (12476) Aeronautical Engineer (Electronics)
93. Air Commodore Shankarayya Gurupadayya Allimatti (11912) Aeronautical Engineer (Electronics)
94. Air Commodore Vipin Kumar (11950) Logistics
95. Air Commodore Bidanda Chengapa Nanjapa (13246), Flying Pilot
96. Group Captain Sajjad Rahim (13031) Aeronautical Engineer (Mechanical)
97. Group Captain Jagjit Singh Gandyok (13216), Administration
98. Group Captain Gudipudi Rajendra Prasad (13236), Administration
99. Group Captain Abhay Gupta (13241), Flying (Pilot)
100. Group Captain Rajneesh Khanna (13296), Aeronautical Engineering (Electronics)
101. Group Captain Anjan Kumar Gogoi (13382), Flying (Pilot)
102. Group Captain Anil Kumar Khosla (13534), Aeronautical Engineer (Electrical)
103. Group Captain Simhakutty Varthaman VM (13606), Flying (Pilot)
104. Group Captain Vijay Kumar Bali, VM (13787), Flying (Pilot)
105. Group Captain Satvir Singh Dhanda (13926), Flying (Pilot)
106. Group Captain Mohit Kumar, VM (14674), Flying (Pilot)
107. Wing Commander Jitender Singh (13667), Administration
108. Wing Commander Gopal Dass Sharma (14047), Administration/Fighter Controller
109. Wing Commander Prabhat Kumar Sinha (14380), Administration/Fighter Controller
110. Wing Commander Narendra Kumar Kalra (14397), Administration/Fighter Controller
111. Wing Commander Shyamal Kumar Chakrabarty (15910), Administration/Fighter Controller
112. Wing Commander Devendra Singh Rawat (16242), Flying (Pilot)
113. Wing Commander Venkata Ramana Mantha (17284), Aeronautical Engineer (Mechanical)
114. Squadron Leader Dipak Kumar Lahiy (18001), Aeronautical Engineer (Mechanical)
115. Squadron Leader Devinder Kumar Sharma (18659), Accounts
116. Squadron Leader Davesh Singh (20255), Aeronautical Engineer (Electrical)
117. 257365 Master Warrant Officer Satya Prakash Dwivedi, Radar Fitter
118. 607784 Warrant Officer Kalathil Pushpakan, Electrical Fitter
119. GO-0759 Chief Engineer (Civ) Raman Singh
120. GO-1315W SE (C) SG Trilok Nath Bhatnagar
121. GO-1451M SE (C) SG Virendra Kumar Yadav

BARUN MITRA
Director

No. 114-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Yuddh Seva Medal" to Brigadier Soli Noshir Pavri (IC-25062), Kumaon, HQ 109 Inf BDE for distinguished service of a high order during hostilities.

BARUN MITRA
Director

No. 115-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-45686 Major Subhash Chander Sipehiya, SM
14 Garhwal Rifles

2. IC-50694 Major Deepak Singh Bisht, SM, 1 Para (SF)
3. SC-00040 Captain Johny Joseph, SM, 8 Maratha Light Infantry

BARUN MITRA
Director

No. 116-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the under-mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-36674 Colonel Kulbhushan Madar, 20 Sikh
2. IC-37555 Colonel Vinod Gulabrao Khandare, 14 Garhwal Rifles
3. IC-36306 Lieutenant Colonel Sunil Kakkar Artillery/93 GL Sector
4. IC-42516 Major OM Prakash Gulia, 16 Bihar
5. IC-46112 Major Vikrant Singh Mech Infantry/15 Rashtriya Rifles (14 Gr)
6. IC-46225 Major Kulwant Singh, EME/NIM Uttarkashi
7. IC-46955 Major Anshoo Saxena, Sikh 6 Rashtriya Rifles (Posthumous)
8. IC-48357 Major Kulkarni Raghunath R, 3 Sikh
9. IC-52780 Major Anuraag Singh Rawat, Mechanical Infantry/14 Rajput
10. IC-54969 Major Amitabh Jha, 1/4 Gorkha Rifles
11. IC-56861 Major Kanwal Kishore, 2 Sikh
12. RC-661 Major Daljit Singh, 7 Sikh
13. SS-37198 Major Sandeep Singh, 11 Maratha Light Infantry
14. IC-52969 Captain Anuj Singh Luthra, Armoured/31 Rashtriya Rifles
15. IC-53172 Captain Satender Malik Maratha Light Infantry/17 Assam Rifles
16. IC-54458 Captain Amarvir Singh Air Defence Artillery/20 Assam Rifles
17. IC-55386 Captain Amol Bhaurao Shende, Artillery 31 Rashtriya Rifles
18. IC-55555 Captain Robby George, Air Defence Artillery/14 Rashtriya Rifles.
19. IC-56751 Captain Girish Upadhya, Maratha Light Infantry/8 Assam Rifles.
20. IC-57015 Captain Vivek Puri, 14 Assam.
21. IC-57031 Captain Sushil Kumar Pandey, Sikh Light Infantry/2 Rashtriya Rifles.
22. SS-37276 Captain Bhupendra Singh Khandka, 14 Garhwal Rifles.
23. SS-37604 Captain Ramesh Chander Badola, 5 Assam.
24. IC-59112 Lieutenant Surender Pal Kharb, Army Ordnance Corps/1 Sikh Light Infantry.
25. IC-59171 Lieutenant Rajiv Shankar Army Service Corps/9 Grenadiers.
26. IC-60551 Lieutenant Kapil Gaur, 3/11 Gorkha Rifles.
27. IC-60966 Lieutenant Chinmoy Zanune, 9 Grenadiers.
28. SS-37997 Lieutenant Mritunjay Upadhyaya, 24 Rajput.
29. AR-215 Asst. Commandant Ashok Kumar Pandey, 7 Assam Rifles.
30. IC-448319 Subedar Irshad Mohammad, 4 Grenadiers.
31. JC-458155 Subedar Chandrakant Gawas, 6 Maratha Light Infantry.
32. JC-498507 Subedar Bhajan Singh, 3 Sikh.
33. JC-508080 Subedar Paramjeet Singh, 11 Sikh Light Infantry.
34. JC-568463 Subedar Pritpal Singh, Mahar/30 Rashtriya Rifles.
35. JC-102822 Naib Subedar Chhabilal Gurung, 10 Assam Rifles.
36. JC-262305 Naib Subedar Balwan Singh, Artillery, 169 Field Regiment.
37. JC-438826 Naib Subedar KK Rajan, 18 Madras.
38. JC-519049 Naib Subedar Bholu Nath Sharma, 11 Dogra.
39. JC-519068 Naib Subedar Kishori Lal Mandhotra, Dogra (Posthumous).
40. JC-528735 Naib Subedar Arjun Singh, 8 Garhwal, Rifles/14 Rashtriya Rifles.
41. JC-612308 Naib Subedar Kosh Bahadur Gurung, 1/4 Gorkha Rifles.
42. JC-612325 Naib Subedar Ram Bahadur Pun, 1/4 Gorkha Rifles.
43. JC-634267 Naib Subedar Kajindra Prasad Limbu, 3/11 Gorkha Rifles.
44. 2585477 Havildar Renadevan K P, 18 Madras.
45. 2778586 Havildar Rathode Dnyanoba Bhaurao, 11 Maratha Light Infantry.
46. 2877433 Havildar Jagdish Prasad Jut, 5 Rajputana Rifles.
47. 3385987 Havildar Amarjit Singh, Sikh/6 Rashtriya Rifles (Posthumous).
48. 3981918 Havildar Kaleshar Chand, 2 Dogra.
49. 4066298 Havildar Hira Singh, 14 Garhwal Rifles.
50. 4263818 Havildar Hari Shankar Singh, 16 Bihar.
51. 4549738 Havildar Mahabir Singh, 5 Mahar.
52. 13615048 Havildar Kailash Chand, 1 Para (SF).
53. 13615768 Havildar Kartar Singh, 1 Para (SF).
54. 13746748 Havildar Madan Lal, 8 JAK Rifles (Posthumous).
55. 4063092 Lance Havildar Data Ram, Garhwal Rifles/36 Rashtriya Rifles.
56. 4068349 Lance Havildar Umed Singh, 14 Garhwal Rifles.
57. 2780175 Naik Bhat Sudhakar Namdeo, Maratha Light Infantry/27 Rashtriya Rifles (Posthumous).
58. 2786549 Naik Madhav Hariba Sirsath, Maratha Light Infantry/27 Rashtriya Rifles.
59. 2891003 Naik Batoon Singh Hooda, 9 Para (SF) (Posthumous).
60. 2991444 Naik Munendra Prasad Rai, 14 Rajput.
61. 3983572 Naik Darshan Lal, Dogra/11 Rashtriya Rifles.
62. 3986437 Naik Janak Raj Saini, Dogra/11 Rashtriya Rifles.

63. 3986730 Naik Kirpal Singh, Dogra/31 Rashtriya Rifles.
64. 4181389 Naik Rajendra Titiyal, 9 Para (SF).
65. 4558956 Naik Binoy Basak, 17 Mahar (Posthumous).
66. 5346210 Naik Chok Bahadur Thapa, 1/4 Gorkha Rifles.
67. 9089362 Naik Parven Kumar, 8 Jak Light Infantry.
68. 9089495 Naik Krishan Singh, 4 Jak Light Infantry.
69. 13617877 Naik Ramlok Kaushal, 6 Para.
70. 13752383 Naik Ajit Singh, Jak Rifles/28 Rashtriya Rifles.
71. 14379250 Naik Birendra Bahadur Singh, AD Artillery/ 15 Rashtriya Rifles.
72. 2886712 Lance Naik Krishna Pal Singh, 4 Rajputana Rifles/18 Rashtriya Rifles.
73. 2988841 Lance Naik Krishna Pal Singh, 14 Rajput.
74. 3393112 Lance Naik Jawahar Singh, 20 Sikh.
75. 5347019 Lance Naik Eric Lepcha, 1/4 Gorkha Rifles.
76. 5347543 Lance Naik Lal Bahadur Thapa, 1/4 Gorkha Rifles.
77. 9095594 Lance Naik Sunil Dutt, 8 Jak Light Infantry.
78. 15303715 Lance Naik Romilan N, 12 Engr Regt.
79. 2487861 Sepoy Mukhtiar Singh, Punjab/7 Rashtriya Rifles (Posthumous).
80. 2488669 Sepoy Lakhwinder Singh, Punjab/22 Rashtriya Rifles.
81. 2603743 Sepoy Devappa Billavoah Muthappa, 10 Madras (Posthumous).
82. 2790703 Sepoy Ashok Salunke, Maratha Light Infantry/27 Rashtriya Rifles (Posthumous).
83. 2998199 Sepoy Gore Singh Parmar, 6 Rajput.
84. 3189590 Sepoy Bhushan Rana, 7 Jat.
85. 3396631 Sepoy Gora Singh, Sikh/16 Rashtriya Rifles.
86. 3396998 Sepoy Rajwinder Singh, Sikh/16 Rashtriya Rifles.
87. 3398878 Sepoy, Sahib Singh, 20 Sikh.
88. 4276725 Sepoy Shri Nivash Kumar, 4 Bihar.
89. 4365281 Sepoy Tashi Kigar, 5 Assam Regt.
90. 4365766 Sepoy Mangal Deb Barman, 9 Assam Regiment.
91. 4475854 Sepoy Jagtar Singh, Sikh Light Infantry/2 Rashtriya Rifles
92. 457096 Sepoy Harminder Singh, 6 Mahar
93. 14923010 Sepoy Satnam Singh, Mech Infantry/9 Rashtriya Rifles (Posthumous)
94. 2003541 Rifleman Chandra Prakash, 20 Assam Rifles
95. 269016 Rifleman Nanak Chand, Grenadiers/29 Rashtriya Rifles
96. 2889111 Rifleman Mahavir Singh Shekhawat, 17 Rajputana Rifles/18 Rashtriya Rifles
97. 2889470 Rifleman Jaipal, 11 Raj Rifles/18 Rashtriya Rifles
98. 4079017 Rifleman Chandra Kishor, 13 Garh Rifle/36 Rashtriya Rifles

99. 5349127 Rifleman Nar Bahadur Gaha Thapa, 1/4 Gorkha Rifles
100. 5850232 Rifleman Bhakta Mani Adhikari, 1/9 Gorkha Rifles
101. 9099104 Rifleman Kishore Kumar, 4 Jak Li (Posthumous)
102. 9422002 Rifleman Sit Bahadur Tamang, 3/11 Gorkha Rifles
103. 9422948 Rifleman Shyam Rai, 3/11 Gorkha Rifles
104. 2695006 Grenadier Nimba Ram, 8 Grenadiers (Posthumous)
105. 9422624 Paratrooper Nawang Tamang, 9 Para (SF)
106. 14418393 Gunner Ashok, Artillery/30 Rashtriya Rifles
107. 1098983 Sowar Dilbag Singh, Armoured Corps/27 Rashtriya Rifles
108. 15465871 Sowar Surinder Singh, Armoured Corps/27 Rashtriya Rifles
109. 90172462 Constable Bhanwar Lal, 105 Bn. BSF (Posthumous)

BARUN MITRA
Dir.

No. 117-Pers/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Commander Ravneet Singh, (02646-N)
2. Commandr Sanjay Mahindru, (02797-F)
3. Lieut Commander Sunil Kumar, (03602-K).
4. Hakim Singh Tyagi, LS UC 1, No. 176051-1'

BARUN MITRA
Dir.

No. 118-Pers/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. Squadron Leader Anil Kumar (18790), Flying (Pilot)
2. Squadron Leader Subash Palakuzhiyil John (20155), Flying (Pilot)
3. Sqn Ldr Ichettira Iyappa Kuttappa (20753), Flying (Pilot)
4. Flight Lieutenant Anindo Sur (23208), Flying (Pilot)
5. Flying Officer Sachin Mehta (25658), Flying (Pilot)

BARUN MITRA
Dir.

No. 119-Pers/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. IC-16624 Brigadier Yeg Raj Maindiratta, Engineers/Hq 475 Engr Bde (Retd.).

2. IC-16898 Brig Kiran, Engineers/Hq 12 Corps (Retd.)
3. IC-24294 Brigadier Satya Priya Moha, Grenadiers/Hq 75(1) Inf Bde
4. IC-28303 Brigadier Laxman Vajayan, Mech Inf/Hq 31 Inf Bde
5. IC-29700 Brigadier Joginder Singh Jaswal, Vrc, Punjab/Hq 163 Inf Bde
6. IC-32453 Brigadier William James Bird Surgeon, 8 Gr/Hq 93 Inf Bde
7. IC-31468 Colonel Sunil Kumar Jha, VSM, 4 Gorkha Rifles/15 RR
8. IC-34373 Colonel Arun Chugh, Artillery/169 Field Regiment
9. IC-35140 Colonel Bakul Chandra Sarmah, Garhwal Rifles/Hq 4 Corps
10. IC-35387 Colonel Kuldip Kumar Tikku, 111 Engrs Regt
11. IC-35500 Colonel Fateh Singh Karamsot, Artillery/90 Med Regt
12. IC-37407 Colonel Rajeshwar Singh, 8 Maratha Light Infantry
13. IC-28090 Col Jitendra Singh Manral, Para/31 Rashtriya Rifles
14. IC-38357 Colonel Rajinder Singh, Sikh/6 Rashtriya Rifles
15. IC-38377 Colonel Bunkaj Sinha, 5 Jak LI
16. IC-38506 Colonel Basant Narayan Singh, 22 Punjab
17. IC-38625 Colonel Bharat Das Pandey, 110 Engineer Regiment
18. IC-38732 Colonel Kundalkar Arvind Ganesh, 1/4 Gorkha Rifles
19. IC-39144 Colonel Gian Chand Angiras, 6 Maratha Light Infantry
20. IC-39185 Colonel Ajae Kumar Sharma, 2 Sikh
21. IC-39808 Colonel Gurdip Singh, 12 Engineer Regt
22. IC-37660 Lieutenant Colonel Jaswant Singh Yadav, Inf
23. IC-48450 Major Yellanki Siva Sankara Rao, 12 Engineer Regt
24. IC-418627 Naib Subedar Yudhvir Singh, Mech Inf
25. 1551234 Havildar Bhole Singh, 108 Engineer Regiment
26. 1482662 Naik Duna Surendra Rao, Engineers/8(1) Fd Coy
27. 14418620 Lance Naik Naseeb Kumar, Arty/90 Med Regt
28. 15317160 Sapper Dudekula Khadervali, 4 Engineer Regiment

BARUN MITRA
Dir.

No. 120-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. Commodore Thirukkarugavoor Seshu Ganesan, VSM, (50325-Z)
2. Commodore Dipak Prabhakar, VSM, (40013-B)
3. Captain Rakesh Pandit, (01790-N)

4. Captain Ravindra Gaikwad, (01793-Z)
5. Commander Jos Xavier Araujo (50645-A)
6. Commander Soonil V Bhokare, (02654-F)
7. Surgeon Commander Vatinder Singh Bedi, (75313-R)
8. Nandan Singh, CHME, No. 147829-A
9. Rear Admiral Surender Singh Rao, VSM, (60163-H)
10. Rear Admiral Rustom Faramroze Contractor, 01224-F
11. Commodore Makatand Sitaram Joshi, VSM, (00989-Y)
12. Commodore Rajinder Singh, VSM, (01427-T)
13. Brig Awad Kishore Singh, AVSM, VSM, IC-28192-Y
14. Captain JS Mann, (50701-B)
15. Commander (SDASW) Nanda Ballabh Fulara, (81283-H)
16. Karam Singh, MCPO CK (O) I, NO 059235-A

BARUN MITRA
Director

No. 121-Pres/2002.—The President is pleased to approve the award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. Air Commodore Gurdip Singh Kochar (13149), Flying (Pilot)
2. Air Commodore Vikas Krishnarao Yajurvedi (13248), Flying Pilot
3. Group Captain Ravinath Gururaj Burli (14667), Flying (Pilot)
4. Wing Commander Chetan Bali (15708), Flying (Pilot)
5. Wing Commander Rakesh Anand (15873), Flying (Pilot)
6. Wing Commander Rakesh Kumar Singh Bhadauria (16026), Flying (Pilot)
7. Wing Commander Nalin Kumar Tandon (16030), Flying (Pilot)
8. Wing Commander Ajay Kukreja (16774), Flying (Pilot)
9. Wing Commander Arvind Singh Butola (16789), Flying (Pilot)
10. Wing Commander Rajiv Kumar Mendiratta (16799), Flying (Pilot)
11. Wing Commander Vinod Rangabhashyam (16811), Flying (Pilot)
12. Wing Commander Nagarajan Venkataramanan (16999), Flying (Pilot)
13. Wing Commander Yogendra Rajora (17327), Flying (Pilot)

BARUN MITRA
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 11th June 2002

No. 6/9/CI/2001.—The following paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin Part-II, dated 3rd June, 2002 (No. 2937), 7th June, 2002 (No. 2945) and 10th June, 2002 (No. 2946) are hereby published for general information :—

No. 2937

Registration from the Committee on Information Technology

Shri Vijayendra Pal Singh Badnore has resigned from the membership of the Committee on Information Technology w.e.f. 27-5-2002.

No. 2945

Nomination of a Member to the Committee on Urban and Rural Development

Shri Nabam Rebia, member Rajya Sabha has been nominated by Chairman, Rajya Sabha to be a member of the Committee on Urban and Rural Development w.e.f. 4th June, 2002.

No. 2946

Nomination of a Member to the Committee on Industry

The Speaker has changed the nomination of Shri Dharam Raj Singh Patel from the Committee on Labour and Welfare to the Committee on Industry.

C. S. JOON
Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 11th April 2002

RESOLUTION

No. F.6-8/2001-U.3.—In accordance with the provision of Rule 3 of the rules and Regulations of the Indian Institute of Advanced Study, the Government of India hereby re-constitutes the Society, on expiry of its term, for three years as follows :—

3(a) Institutional Members (Ex-Officio)

1. Secretary, Department of Secondary & Higher Education
 2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance
 3. Joint Secretary (Higher Education), Department of Secondary & Higher Education
 4. Chairman, University Grants Commission
 5. Director-General, Council of Scientific & Industrial Research, Anusandhan Bhawan, Rafi Ahmed Marg, New Delhi
 6. Chairman, Indian Council of Historical Research
 7. Chairman, Indian Council of Social Science Research
 8. Chairman, Indian Council of Philosophical Research
 9. Chairman, National Book Trust, Green Park, Aurobindo Marg, New Delhi
 10. Chairman, Sahitya Akademi, Ferozeshah Road, New Delhi
 11. Chairman, Lalit Kala Akademi, Rabindra Bhawan, New Delhi
 12. Chairman, Sangeet Natak Akademi, Rabindra Bhawan, New Delhi
 13. Chairman, Indian National Science Academy, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi
 14. One of the Vice-Presidents of the Indian Council of Cultural Relations, Azad Bhawan, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi
15. Chairman, Association of Indian Universities
 16. Director, National Library
 17. Director-General of Archives and
 18. Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh
- 3(b) Nominated Members
- (i) Six Vice-Chancellors of Indian Universities nominated by the Central Government
- (1) Dr. Balwant Jani
Vice-Chancellor,
North Gujarat University,
PB No. 21, University Road,
Patna-384265.
 - (2) Prof. K. N. Pathak
Vice-Chancellor,
Punjab University,
Chanrigarh-160014.
 - (3) Shri S. V. Giri
Vice-Chancellor,
Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning,
Prasanthi Nilayam-515134,
Anantapur District (AP).
 - (4) Dr. K. K. Dwivedi
Vice-Chancellor,
Arunachal University,
Rono Hills, Itanagar-791112.
 - (5) Dr. R. D. Chaudhury
Vice-Chancellor,
National Museum Institute of History of Art,
Conservation and Museology,
Janpath, New Delhi-110011.
 - (6) Dr. N. Samten
Vice-Chancellor,
Central Institute of Higher Tibetan Studies,
Sarnath, Varanashi-221007.
- (ii) 18-24 Educationists nominated by the Central Government
- President
- (1) G. C. Pande,
Retired Vice-Chancellor, Rajasthan/
Allahabad University,
1, Balrampur House,
Allahabad-211002.
- Vice-President
- (2) Dr. Lakan Lal Mehrotra,
Ex-Foreign Secretary,
C-1/16 Sheeladri,
Sector 31, Noida-201201 (UP).
 - (3) Prof. D. P. Chattopadhyay,
25, Park Manslon,
57-A, Park Street,
Calcutta-700016
 - (4) Shri M. D. Srinivasan,
Centre for Policy Studies,
University of Madras,
Chepauk, Chennai-600005.
 - (5) Prof. S P Banerjee,
Centre for Policy Studies,
University of Madras,
Chepauk, Chennai-600005.
 - (6) Prof. Meera Srivastava,
Formerly Professor,
Deptt. of Hindi,
Allahabad University.
 - (7) Prof. Kapil Kapoor,
Rector, Jawaharlal Nehru University,
New Mehraull Road,
New Delhi-110068.
 - (8) Shri B N Tandon,
Director
K K Birla Foundation,
Hindustan Times House (10th Floor)
18-20, Kasturba Gandh Marg,
New Delhi-110001

- (9) Dr. Yoganand Kale,
Pro-Vice-Chancellor,
University of Nagpur,
Ravindra Nath Tagore Marg
Nagpur 440301
- (10) Dr. B K Joshi,
Former Vice-Chancellor,
Kumaon University,
At present Dehradun.
- (11) Dr. R S Nigam,
Professor of Commerce,
Delhi University,
Delhi-110007.
- (12) Prof. Bhuvan Chandel,
Department of Philosophy,
Punjab University,
Chandigarh-160014.
- (13) Prof. Thimma Reddy,
Department of Anthropology,
Andhra University,
Waltair, Visakhapatnam-530003.
- (14) Prof. A K Saran,
C-136, Nirala Nagar,
Lucknow-226020.
- (15) Prof. B N S Yadava,
33/3, Stanley Road,
Allahabad-211002.
- (16) Dr. Gopi Chand Narang,
D-252, Sarvodaya Enclave,
New Delhi-110017.
- (17) Dr. Aruna Goal,
Professor of Sanskrit,
Punjab University,
Chandigarh-160014.
- (18) Prof. S R Bhat,
Head, Department of Philosophy,
M/Pa-23, Maurya Enclave,
Pitam Pura, Delhi-110034.
- (19) Prof. R Balasubramanian,
SIVABAL,
5, Bhagirathi Street,
Srinivasa Avenue
Raja Annamalai Puram,
Chennai-600028.
- (20) Prof. Virendra Nath Misra,
G-2, B Wing, Ganga Park,
Mundhwa Road,
Pune-411036.
- (21) Prof. S P Singh,
YB-2, Sah Vikas Apartments,
68, I P Extension, Delhi-110092.
- (22) Prof. Anjan Kumar Banerjee,
Formerly Professor,
Department of Journalism and
Mass Communication,
Banaras Hindi University.
- (23) Dr. Kusum Lata Kedia,
Professor of Social Sciences,
Gandhian Institute of Studies,
Varanasi.

(24) Prof. Vinay Chandra Pandey,
Department of History,
Allahabad University,
Senate Hall, Allahabad-211002

3(c) Representatives of the Institute

- (1) Director, Indian Institute of Advanced Study,
Shimla.
- (2) All Fellows for the time being in position.
- (3) All distinguished Guests for the time being in position.

In terms of rule 3(c) (iv), Dr. Lakan Lal Mehrotra is nominated Vice-President of the Society.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to State Governments.

P. K. GUPTA
Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd May 2002

RESOLUTION

No. F. 6-8/2001-U.3.—In accordance with the provision of Rule 3 of the Rules and Regulations of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, the Government has reconstituted the Society of Indian Institute of Advanced Study, Shimla vide Resolution of even number dated 11th April 2002. Now following amendments is made in the list of 18—24 Educationists nominated by the Central Government :—

18—24 Educationists nominated by the Central Government

Existing	To be substituted as follows
Prof. S P Banerjee, Centre for Policy Studies, University of Madras, Chennai.	Prof. S P Banerjee, Former Vice-Chancellor, University of Burdwan, ARGHYA, FE 92, Sector III, Salt Lake City, Calcutta-700091, West Bengal.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to State Governments.

P. SUKUMAR
Dy. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मद्रित

एवं प्रकाशन निष्पन्नक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2002